

## HIN1B08a – Fiche d'exercices N° 1

### Exercice 1

- Excuse me, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। कुछ रात पहले मैंने आपको station पे देखा था। आप अकेली खड़ी थी। ट्रेन आई और जब तक मैंने मुड़के देखा तो आप चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या आप किसी का इंतज़ार कर रही थीं ? अगर आप इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो it's ok. No problem.
- आपने station पर खड़ी उस लड़की को तो देख लिया लेकिन उसका पहना हुआ लाल जोड़ा नहीं देखा, उसके हाथों की मेहँदी नहीं देखी, उसके माथे का सिंदूर नहीं देखा। वह करवा चौथ की रात थी, मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी।

### Exercice 2

- दरअसल sir मुझे नींद में चलने की बीमारी है। एक बार तो क्या हुआ था sir चलते-चलते border cross करके पाकिस्तान पहुँच गया था।

### Exercice 3

- माफ़ कीजिएगा सर पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ, आप हार गए। क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे एक पचपन साल का बाप एक उन्नीस साल की बेटा की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दीख रहा है।

### Exercice 4

- मैं ज़ारा से कितनी मुहब्बत करता हूँ, मैं नहीं जानता।
- मैं जानती हूँ। एक हिन्दुस्तानी air force pilot को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं होती। मैं जानती हूँ कि यह खबर सुनते ही आपने सबसे पहले अपना इस्तीफ़ा दिया , यह जानते हुए कि आप वापस कभी join नहीं कर पाएँगे। फिर किसी को बताए बिना आप लाहौर के लिए रवाना हुए। यह जाने बग़ैर कि सफ़र का अंजाम क्या होगा, कि आप वक़्त से पहुँच सकेंगे, कि ज़ारा से आपकी मुलाक़ात होगी, कि ज़ारा आप के साथ जा सकेंगी, कि आप खुद वापस जा सकेंगे। कुछ नहीं जानते थे आप। मगर फिर भी आप जल्दी आए। शायद आप नहीं जानते मगर मैं जानती हूँ कि आप ज़ारा से कितनी मुहब्बत करते हैं। मैं जानती हूँ।

### Exercice 5

- यहाँ सांगानेर में आपका स्वागत है राजा जी। चंद्रभान जी का पैग़ाम मिलते ही हमने आलमपनाह को ख़बर कर दी थी। आलमपनाह यहाँ हाथियों के अखाड़े में आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
- आलमपनाह कहाँ हैं ?
- आलमपनाह वह रहे। ऐसे बिगड़ल हाथी और बिदकते घोड़ों को क़ाबू में करके उन पर सवारी करना हमारे आलमपनाह का शौक़ है राजाजी।

### Exercice 6

- देर की कही हुई बात वह आज तक नहीं भूल गए, वह नहीं आएँगे।

### Exercice 7

- पता लगाइए कि अपने मायके से अलग वह किसको ख़त लिखती है ?
- बड़ी अम्मी आप अलफ़ाज़ लपेटकर क्या कहना चाहती हैं ?
- आपसे शादी से पहले उसकी सगाई अजबगढ़ के राजकुमार के साथ हुई थी। फिर आप से नाता जोड़ लिया। क्यों ? एक हसीन बीवी की शक़ल में राजपूतों की भेजी हुई क़ातिल है वह।
- आपके कहने का मतलब है कि उसने अजबगढ़ के राजकुमार को कोई पैग़ाम भेजा।
- आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं जलाल। आपकी बीवी है फिर भी आपको जिस्म छूने से बाज़ क्यों रखा है ? क्योंकि उसका तन मन आज भी उस राजपूत राजकुमार के साथ बंधा है। अब जल्द ही कोई उससे मिलने आने वाला है।
- क्या ?
- कितना भी चमके पीठ पीछे हर आईना काला ही होता है जलाल।

### Exercise 8

- अरे भई अजय ! ज़रा ऊपर जाके देखो दूल्हा दुल्हन ready हुए या नहीं।
- जी जी
- अरे कहीं ऐसा तो नहीं हम सबको चकमा देकर नया जोड़ा honeymoon पर निकल लिया हो।
- अरे भई, मुबारक हो राज। Anniversary बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी जी आप को भी बहुत बहुत मुबारक हो।
- अरे भई राज ! जब हम अंग्रेज़ों के छोड़े हुए honeymoon , anniversary, birthdays याद रख सकते हैं तो फिर उनकी प्यारी-सी रस्म क्यों नहीं याद रख सकते ?
- कौनसी रसम ?
- अरे वही जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाके घर की चौखट लाँघता है।

### Exercise 9

- वादा करो मुझसे कि तुम कभी नहीं रोओगे, कभी नहीं। वैसे भी, रोते वक़्त तुम बिलकुल अच्छे नहीं लगते।

### Exercise 10

- इन सिकंदरों, क़लंदरों, बिलंदरों के नाम आज की art class। इनको याद करते हुए इस चारदीवारी के बाहर क़दम रखेंगे और कुछ अलग बनाएँगे different कुछ भी। जी में आए वह उठाओ। पत्थर, लकड़ी, कचरा कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ़ बढ़ना शुरू कर दो।